

THE MINISTER OF INDUSTRY
(SHRI MURASOLI MARAN): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) Government has been monitoring the developments in the paper industry on a continuous basis. The status of paper industry is also reviewed in consultation with industry associations and suitable remedial measures are taken as and when necessary.

निर्यात मूल्य

226. श्री मोहिन्दर सिंह कल्याणः क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी अफ्रीका को कितने-कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया है;

(ख) अब तक विभिन्न देशों को निर्यात की गई प्रमुख वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1996-97 के लिए वस्तुओं के लिए निर्यात के संबंध में निर्धारित किये गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या आवश्यक कार्यवाही की जा रही है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्लुली रामैया): (क) पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस, यू.के., यू.एस.ए., आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका को पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई वस्तुओं का विवरण पत्र संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ख) भारत द्वारा विभिन्न देशों को निर्यात की गई मर्चों में रत्न और आभूषण चमड़ा और इसके उत्पाद, इंजीनियरी वस्तुएं, वस्त्र और मेड-अप्स, कृषिजन्य उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, अयस्क और खनिज एवं हस्तशिल्प शामिल हैं जिनका भारत के निर्यात में महत्वपूर्ण हिस्सा है।

(ग) हाल के वर्षों में प्राप्त की गई निर्यात वृद्धि दरों के आधार पर वाणिज्य मंत्रालय वर्ष 1996-97 के लिए डालर के रूप में 20% की वृद्धि को बनाए रखने की योजना बना रहा है।

(घ) निर्यात संवर्धन एक सतत क्रियाकलाप है और व्यापारी एवं औद्योगिक समुदाय तथा निर्यात संवर्धनात्मक

संगठनों के साथ विचार विमर्श करके समय-समय पर निर्यात बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाते हैं। निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में व्यापार मेलों और प्रदर्शिनियों का आयोजन, आयात और निर्यात नीति तथा प्रक्रियाओं का सरलीकरण, कार्यक्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार, गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी उन्नयन निश्चित करना तथा निर्यात संवर्धन में राज्य सरकारों की सक्रिय रूप से शामिल करने के प्रयास शामिल हैं।

विवरण

विभिन्न देशों की निर्यात की गई वस्तुओं का मूल्य
(मिलियन अमरीकन डालर में)

देश	1993-94	1994-95	1995-96
पाकिस्तान	64	57	77
बांग्लादेश	430	645	1037
रूस	649	807	1047
यू.एस.ए.	3999	5021	5518
यूनाइटेड किंगडम	1779	1690	2008
आस्ट्रेलिया	245	346	376
दक्षिण अफ्रीका	28	157	333

Credit Crunch for Exports

227. SHRI SANJAYA DALMIA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news-item captioned "Exports reeling under credit Crunch; Survey" appearing in the Hindustan Times, dated February 5, 1996;

(b) if so, the steps taken by Government to improve the Liquidity position of exporters?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH): (a) Yes, Sir.

(b) Standing instructions of the RBI, require the banks to achieve a minimum level of 10% of net bank credit to the export sector. As on 7.6.96 the total export credit outstanding is provisionally estimated at Rs. 30,914 crores forming 12.4% of the total net bank credit, which